



# **BULANDSHAHR POLICE**



**दिनांक 10 नवम्बर, 2022**

**CRACKDOWN BULANDSHAHR**

**थाना बीबीनगर**

**थाना बीबीनगर पुलिस की ट्रैक्टर पर सवार 25-25 हजार रुपये के पुरस्कार घोषित बदमाशों से हुई मुठभेड़, क्रॉस फायरिंग में एक घायलावस्था सहित दो अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध असलहा, कारतूस व ट्रैक्टर बरामदा**

जनपद मे तलाश वांछित अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 09/10-11-2022 को थाना बीबीनगर पुलिस टीम सैदपुर पुलिया पर संदिग्ध वाहन/व्यक्तियों की चैकिंग में मामू थी कि उसी समय अभिसूचना मिली कि एक ट्रैक्टर पर 02 संदिग्ध व्यक्ति परतापुर गंगावली पुलिया की नहर पटरी से सैदपुर की तरफ आ रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस टीम गंगावली बम्बा ताजपुर पुलिया पर पहुँची, जहाँ ट्रैक्टर को आता देख रूकने का इशारा किया गया तो बदमाश ट्रैक्टर को तेजी से मोड़कर भागने लगे। पुलिस टीम द्वारा बदमाशों का पीछा किया गया तो परतापुर गंगावली पुलिया से नहर पटरी के पास उनका ट्रैक्टर गड्ढे में धंस गया। बदमाशों द्वारा अपने आपको पुलिस से घिरता देख पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में एक बदमाश गोली लगने से घायल हुआ, दोनो बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार/घायल बदमाशों की पहचान **1. राजपाल पुत्र सोहनलाल निवासी ग्राम रोरा थाना अनूपशहर जिला बुलन्दशहर 2. जगवीर सिंह पुत्र स्व0 गजे सिंह निवासी ग्राम हिंगवाडा थाना बीबीनगर जिला बुलन्दशहर के रूप में हुई हैं।** घायल बदमाश राजपाल को उपचार हेतु सीएचसी बीबीनगर में भर्ती कराया गया। बदमाश शातिर किस्म के लुटेरे/चोर हैं जो थाना बीबीनगर पर पंजीकृत मुअसं-252/22 धारा 302/379 भादवि से वांछित चल रहे थे। **दोनो बदमाशों की गिरफ्तारी पर 25-25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित है।** अभियुक्तगण द्वारा बरामद ट्रैक्टर को दिनांक 30/31-10-2022 की रात्रि में थाना बीबीनगर क्षेत्र से एक व्यक्ति की हत्या कर चोरी किया गया था जिसके सम्बन्ध में थाना बीबीनगर पर मुअसं-252/22 धारा 302/379 भादवि पंजीकृत हैं।

## **गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता-**

- 1- राजपाल पुत्र सोहनलाल निवासी ग्राम रोरा थाना अनूपशहर जिला बुलन्दशहर।
- 2- जगवीर सिंह पुत्र स्व0 गजे सिंह निवासी ग्राम हिंगवाडा थाना बीबीनगर जिला बुलन्दशहर।

## **बरामदगी-**

- 1- 01 तमंचा 315 बोर मय 02 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस
- 2- 01 ट्रैक्टर स्वराज 735 - (बिना नम्बर)

## **गिरफ्तार अभियुक्त राजपाल का आपराधिक इतिहास-**

1. मुअसं-144/98 धारा 323/324/504/506 भादवि थाना अनूपशहर बुलन्दशहर।
2. मुअसं-277/2000 धारा 3(1) गुण्डा अधि0 थाना थाना अनूपशहर बुलन्दशहर।
3. मुअसं-252/22 धारा 302/379/411/120बी भादवि थाना बीबीनगर बुलन्दशहर।
4. मुअसं-256/22 धारा 307 भादवि थाना बीबीनगर बुलन्दशहर।
5. मुअसं-257/22 धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना बीबीनगर बुलन्दशहर।

## गिरफ्तार अभियुक्त जगवीर का आपराधिक इतिहास-

1. मुअसं-252/22 धारा 302/379/411/120बी भादवि थाना बीबीनगर बुलन्दशहर।
2. मुअसं-256/22 धारा 307 भादवि थाना बीबीनगर बुलन्दशहर।

अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बीबीनगर पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जायेगा।

## गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- श्री जितेन्द्र सिंह थाना प्रभारी बीबीनगर।
- 2- उ०नि० श्री अशोक कुमार।
- 3- का० अरविन्द, का० जगवीर, का० दिगपाल।

